

हिंदी दिवस समारोह - 14 सितम्बर 2020



महाराजा अग्रसेन विद्यालय ने हिंदी दिवस समारोह, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज इस महामारी कोरोना के चलते जहाँ हम सभी चारदीवारी में सिमटे हैं, वहीं इस दूरी को कम करते हुए, ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों ने अपनी मातृभाषा के प्रति अपना प्रेम बहुत ही जोश के साथ प्रकट किया।

इस कार्यक्रम में छात्रों ने हिंदी साहित्यकाल के प्रमुख कवियों व उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया। छात्रों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल के कवियों व कवयित्रियों का जीवन परिचय दिया, छात्रों ने उन्हीं की वेशभूषा में उनके द्वारा रचित कविताओं की संक्षिप्त जानकारी दी व उनकी कविताएँ भी गा कर सुनाई। कवि चंदबरदाई की वीर रस की ओजपूर्ण कविता हो या भक्ति रस में सराबोर करती कबीर का दोहा, तुलसी व मीरा का भजन, जायसी के पद्मावत की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीर रस से ओतप्रोत झांसी की रानी कविता, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि कवियों की कविता को बहुत ही मधुर गायन के साथ प्रस्तुत करके



छात्रों ने अपनी मातृभाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके साथ ही छात्रों ने हिंदी भाषा - के महत्त्व पर भी अपनी कविता गा कर, हिंदी के महत्त्व का गुणगान किया तथा कविता मुहावरों की भाषा में - मुहावरों की घुमावदार भाषा को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया।



इस विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए हिंदी विभाग का प्रयास

सराहनीय है। विशेषकर श्रीमती उमा शर्मा मैम व हमारी विभागाध्यक्ष श्रीमती शिखा मल्होत्रा जी का जिनके मार्गदर्शन में यह समारोह आयोजित किया गया। छात्र परिषद् संघ के छात्रों का भी इसमें योगदान है, जिन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से संचालित किया।

अंत में हमारी प्रधानाचार्या श्रीमती पूनम गुप्ता जी ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ दी और बच्चों द्वारा किये गए कार्यक्रम की सराहना व प्रशंसा की।

उन्होंने हिंदी व संस्कृत भाषा को हमारी भारतीय संस्कृति व सभ्यता से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। साथ ही बच्चों को बताया कि मात्र हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक रूप से भी मान्य है।

